



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 605]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 839(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली, 1983 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली, 1993 तथा उनके संशोधनों जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कतिपय पदों अर्थात् संयुक्त सचिव, उप सचिव, कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी, वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक, आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हैं, के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

(1) लघु शीर्षक और आरंभ-

- I. इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
- II. यह शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) लागू होना- ये नियम इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

(3) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके साथ संलग्न वेतनमान, उक्त अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा निर्दिष्ट होंगे।

(4) भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे जुड़े अन्य संबद्ध मामले, उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 12 में यथा निर्दिष्ट होंगे।

(5) अपात्रता-

(i) कोई भी व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए अर्हताप्राप्त नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जो समय-समय पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

(ii) कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने पहले से विवाहित किसी व्यक्ति/महिला से विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है और उसके किसी अन्य व्यक्ति/महिला से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि ऐसे व्यक्ति को लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत ऐसा विवाह और विवाह के लिए दूसरा पक्ष स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, पर संतुष्ट होती है, तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

(6) व्यावृत्ति - इस नियमावली से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किये जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य अपेक्षित छूटें कुछ भी प्रभावित नहीं होंगी।

(7) व्याख्या- यदि इस नियमावली की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या ये चयन पद हैं अथवा गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त सचिव	17 *(वर्ष 2014)	समूह 'क'	वेतन - बैंड-4 रु.37400-67000 के साथ ग्रेड पे रु.8700	चयन	50 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व./ विकलांग और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता, पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या ये सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
अनिवार्य: 1. किसी भी विषय में डॉक्टरेट के साथ स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम या द्वितीय श्रेणी; 2. उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय या कॉलेज	हां	2 वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा) और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

अथवा शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम 12 वर्ष का पढ़ाने/अनुसंधान का अनुभव 3(i) मूल कैडर/ विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाला अथवा 3(ii) मूल कैडर/ विभाग में पे बैंड-3 (रू.15600-39100) के साथ ग्रेड पे रू.7600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो।			
--	--	--	--

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे यह पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है	क्या कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p>पदोन्नति: आयोग में उप सचिव के पद पर इस ग्रेड में लगातार 5 वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (क): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अधिकारी;</p> <p>(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो अथवा</p> <p>(ii) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड-3 (रू.15600-39100) के साथ ग्रेड पे रू.7600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो।</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हता रखता हो:</p> <p>शैक्षिक प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>डीपीसी अथवा चयन समिति का गठन</p> <p>(i) अध्यक्ष, यूजीसी - अध्यक्ष</p> <p>(ii) उपाध्यक्ष, यूजीसी;</p> <p>(iii) अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा आयोग के दो नामित-सदस्य;</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि</p>	लागू नहीं

* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित। जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उप सचिव के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
उप सचिव	16 *(वर्ष 2014)	समूह 'क'	वेतन-बैंड-3, रू.15600-39100 के साथ ग्रेड पे रू.7600	चयन	45 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा. / अ.ज.जा. /अ.पि.व./ विकलांग और केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

7	8	9	10
अनिवार्य: 1. अच्छे अकादमी रिकार्ड के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री; 2. उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय या कॉलेज अथवा शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम 7 वर्ष का पढ़ाने/अनुसंधान का अनुभव 3(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो; अथवा 3(ii) मूल कैडर/विभाग में पे बैंड-3 (रू. 15600-39100) के साथ ग्रेड पे रू. 6600/- या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के साथ-साथ इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो; वांछनीय किसी भी विषय में डॉक्टरेट	हां	2 वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा) और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
पदोन्नति: आयोग में अवर सचिव अथवा शिक्षा अधिकारी के ग्रेड में लगातार 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; पदोन्नति में शिक्षा अधिकारी/ अवर सचिव की परस्पर वरिष्ठता संबंधित ग्रेड में लगातार नियमित सेवा के आधार पर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (क): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अधिकारी; (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो; अथवा (ii) मूल कैडर/विभाग में बैंड-3 (रू. 15600-39100) के साथ ग्रेड पे रू. 6600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो और (ख) निम्नलिखित अर्हता रखता हो: शैक्षिक प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, आमतौर पर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी (ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(i) अध्यक्ष, यूजीसी -अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा आयोग के दो नामित सदस्य; (iii) एक बाह्य विशेषज्ञ (यूजीसी अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया); (iv) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि	लागू नहीं

* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित। जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	09 *(वर्ष 2014)	समूह 'ख'	वेतन बैंड-2 रू.9300-34800 के साथ ग्रेड पे रू.5400/	लागू नहीं	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति: वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के रूप में लगातार पांच वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(क) केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी:</p> <p>(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो; अथवा</p> <p>(ii) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड-2 (रू.9300-34800) के साथ ग्रेड पे रू.4200 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा प्रदान की हो (अथवा मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड-2 (रू.9300-34800) के साथ ग्रेड पे रू.4600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा प्रदान की हो</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हता रखता हो:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य (एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित) में प्रथम अथवा दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सांख्यिकी पैकेज का ज्ञान</p> <p>वांछनीय:</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालयों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में डाटा विश्लेषक और इंटरप्रेशन अथवा संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी;</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>(i) सचिव, यूजीसी-अध्यक्ष:</p> <p>(ii) अपर सचिव, यूजीसी (अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा नामित किया जाएगा):</p> <p>(iii) दो बाह्य विशेषज्ञ (अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा नामित किए जाएंगे):</p> <p>(iv) केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि</p>	लागू नहीं

* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित। जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक	11 *(वर्ष 1983)	समूह 'ख'	वेतन बैंड-2 रू.9300-34800 के साथ ग्रेड पे रू.4200	लागू नहीं	35 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ विकलांग और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य (एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित) में प्रथम अथवा दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सांख्यिकी पैकेज का ज्ञान वांछनीय: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालयों/ पीएसयू/स्वायत्त निकायों में डाटा विश्लेषक और इंटरप्रिटेशन अथवा संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा (लिखित और कौशल परीक्षा), जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी: (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो; अथवा (ii) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड-1 (रु.5200-20200) के साथ ग्रेड पे रु.2800 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में छ: वर्ष की सेवा प्रदान की हो ; और (ख) कॉलम (7) के अनुसार अर्हताएं और अनुभव रखता हो ; नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ; (ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं	लागू नहीं

* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित। जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आशुलिपिक के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
आशुलिपिक	13 (वर्ष 2014)	समूह 'ग'	वेतन बैंड-1 रु.5200-20200 के साथ ग्रेड पे रु.2400	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा. / अ.ज.जा. /अ.पि.व./ विकलांग और केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों /निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

7	8	9	10
(क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास अथवा उसके समकक्ष। (ख) कौशल परीक्षा मानदंड (डिक्टेशन: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रतिमिनट ट्रांसक्रिप्शन: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (ग) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा (लिखित और कौशल परीक्षा)

11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
अवर श्रेणी लिपिक	126 (वर्ष 2014)	समूह 'ग'	वेतन बैंड-1, रु.5200-20200 के साथ ग्रेड पे रु.1900	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा. / अ.ज.जा. /अ.पि.व./ विकलांग और केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

7	8	9	10
अनिवार्य: (क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास अथवा उसके समकक्ष। (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टाइपिंग स्पीड (ग) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा (लिखित और कौशल परीक्षा)

11	12	13
(i) सीधी भर्ती द्वारा 85% ; (ii) 10% रिक्त पद 1800 रूपए के ग्रेड वेतन में समूह ग स्टाफ और जो 12वीं पास या उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष) टिप्पणी: खण्ड (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो कर्मचारियों की इस अतिरिक्त संख्या पर तदन्तर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5% रिक्तियां वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रूपए के ग्रेड वेतन वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	लागू नहीं	लागू नहीं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती नियम
अनुसूची

1	2	3	4	5	6
मल्टी टास्किंग स्टाफ	70 (वर्ष 2014)	समूह 'ग'	वेतन बैंड-1 रु.5200-20200 के साथ ग्रेड पे रु.1800/-	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और अ.जा. / अ.ज.जा. /अ.पि.व./ विकलांग और केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट)

7	8	9	10
मैट्रिक अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती (लिखित एवं कौशल परीक्षा)

11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[फा. सं. 4-43/2014-यू1ए]

एस.एस. संधु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2016

G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules in supersession of University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983 and University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1993 and their amendments regulating the method of recruitment to certain posts in the University Grants Commission, namely Joint Secretary, Deputy Secretary, Junior Statistical Officer, Senior Statistical Assistant, Stenographer, Lower Division Clerk and Multitasking Staff (MTS):-

(1) Short title and commencement-

- I. These rules may be called the University Grants Commission Recruitment Rules, 2016.
- II. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Application- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

(3) Number of posts, classification and scale of pay- The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

(4) Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 12 of the aforesaid Schedule.

(5) Disqualification-

- (i) No person shall be qualified for appointment to the posts mentioned in the schedule unless he is a citizen of India, or belong to such categories of persons as may, from time to time be notified in this behalf by the Central Government.
- (ii) No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(6) Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(7) Interpretation- If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the Central Government.

Recruitment Rules For Joint Secretary in the University Grants Commission**SECHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Joint Secretary	17 *(Year 2014)	Group 'A'	PB-4 Rs. 37400-67000 with GP of Rs. 8700/-	Selection	50 Years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
7	8	9	10
Essential: 1. Doctorate in any discipline with First or second class Masters Degree; 2. At least 12 years of experience of teaching/research in any University or college or educational administration in higher education; 3(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or 3(ii) With 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre/ department.	Yes	2 Years (for direct recruitment)	75% by promotion (failing which by deputation) and 25% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption/ grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Deputy Secretary in the Commission with 5 years continuous regular service in the grade. Transfer on deputation : (a) Officers under the Central Government, State Government, Universities and Autonomous bodies:- (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or	Composition of DPC or Selection Committee i) Chairman, UGC-Chairman; ii) Vice-Chairman, UGC; iii) Two Member of Commission nominated by Chairman, UGC;	Not Applicable.

<p>(ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-3 (Rs. 15600-39100) with GP of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre/department.</p> <p>AND</p> <p>(b) Possessing the following qualifications 5 Years of experience in educational administration.</p> <p>NOTE: (i) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>(ii) The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>	iv) One representative of the Central Govt.	
---	---	--

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given with in brackets

**Recruitment Rules For Deputy Secretary in the University Grants Commission
SECHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Deputy Secretary	16 *(Year 2014)	Group 'A'	PB-3 Rs.15600- 39100 with GP of Rs. 7600/-	Selection	45 Years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

7	8	9	10
<p>Essential:</p> <p>1. First class Masters Degree from a recognized University with a good academic record;</p> <p>2. At least 7 years of experience of teaching/research in University or college or educational administration in higher education;</p> <p>3(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>3(ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/ department</p> <p>Desirable</p> <p>Doctorate in any discipline.</p>	Yes	2 Years (for direct recruitment)	75% by promotion (failing which by deputation) and 25% by direct recruitment.

11	12	13
<p>Promotion : Under Secretary or Education Officer in the commission with 5 years continuous regular service in the grade; the inter-se-seniority of the Education Officer/Under Secretary in promotion quota shall be reckoned on the basis of continuous regular service in the respective grade.</p>	<p>i) Chairman, UGC- Chairman;</p> <p>ii) Two members of the Commission to be nominated by the Chairman, UGC;</p> <p>iii) One outside expert (to be nominated by the Chairman, UGC);</p> <p>iv) One representative of the Central Government.</p>	Not Applicable.

<p>Transfer on deputation:</p> <p>(a) Officers under the Central Government, State Government, Universities and autonomous bodies;-</p> <p>(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB -3 (Rs. 15600-39100) with GP of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p>AND</p> <p>(b) Possessing the following qualification: 5 years of experience in educational administration.</p> <p>NOTE: (i) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>(ii) The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given with in brackets

**Recruitment Rules For Junior Statistical Officer in the University Grants Commission
SECHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Junior Statistical Officer	09 *(Year 2014)	Group 'B'	PB-2 Rs. 9300-34800 with GP of Rs. 5400/-	Not Applicable	Not Applicable

7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion, failing which by deputation

11	12	13
<p>By promotion: 5 years continuous regular service as Senior Statistical Assistant</p> <p>By Deputation:</p> <p>(a) Officers under the Central Government:</p> <p>(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) With 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 (Rs. 9300-34800) with GP of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department (or</p>	<p>(i) Secretary, UGC – Chairman;</p> <p>(ii) Addl. Secretary, UGC (To be nominated by Chairman, UGC);</p> <p>(iii) Two outside experts (To be nominated by Chairman, UGC);</p> <p>(iv) One representative of the</p>	Not Applicable.

<p>with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 (Rs. 9300-34800) with GP of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department);</p> <p>AND</p> <p>(b) Possessing the following qualifications:</p> <p>First or Second class Masters Degree in Statistics or Mathematics or Economics/Commerce (with Statistics as a subject) from a recognized University, with knowledge of computer applications/statistical packages.</p> <p>Desirable: Two years experience in data analysis and interpretation or in relevant field in a Central Government/State Government/Universities/PSU/Autonomous bodies.</p> <p>Note:(i) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>(ii) The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.</p>	Central Government.	
--	---------------------	--

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given with in brackets

**Recruitment Rules For Senior Statistical Assistant in the University Grants Commission
SECCHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Senior Statistical Assistant	11 *(1983)	Group 'B'	PB-2 Rs.9300-34800 with GP of Rs. 4200/-	Not Applicable	35 years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

7	8	9	10
<p>First or Second class Masters Degree in Statistics or Mathematics or Economics/ Commerce (with Statistics as a subject) from a recognized University, with knowledge of computer applications/ statistical packages.</p> <p>Desirable:</p> <p>Two years experience in data analysis and interpretation or in relevant field in a Central Government/State Government /PSU/ Autonomous bodies/Universities.</p>	Not Applicable	Two years	By direct recruitment (Written and Skill Test), failing which by deputation

11	12	13
<u>By Deputation</u> (a) Officers under the Central Government (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-I (Rs. 5200-20200) with GP of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the qualifications and experience as per column(7) Note: i) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. ii) The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.	Not Applicable	Not Applicable.

* **Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given with in brackets**

**Recruitment Rules For Stenographer in the University Grants Commission
SECHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Stenographer	13 (Year 2014)	Group 'C'	PB-I Rs.5200-20200 with GP of Rs. 2400/-	Not Applicable	30 years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

7	8	9	10
(a) 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (b) Skill Test Norms (Dictation: 10 mts@ 80 w.p.m. Transcription: 50 mts (Eng), 65 mts (Hindi) on computer) (c) Knowledge of computer applications	Not Applicable	Two years	Direct recruitment (Written and Skill Test)

11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.

**Recruitment Rules For Lower Division Clerk in the University Grants Commission
SECHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Lower Division Clerk	126 (Year 2014)	Group 'C'	PB-I Rs.5200-20200 with GP of Rs. 1900/-	Not Applicable	30 years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

7	8	9	10
Essential (a) 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (c) Knowledge of computer applications Desirable: Graduate from any recognized university	Not Applicable	Two years	Direct recruitment (Written and Skill Test)

11	12	13
(i) 85% by direct recruitment; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12 th class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for SC/ST); Note: If more of such employees than the no. of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess no. of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-	Not Applicable	Not Applicable.

**Recruitment Rules For Multi Tasking Staff in the University Grants Commission
SECHEDULE**

1	2	3	4	5	6
Multi Tasking Staff	70 (Year 2014)	Group 'C'	PB-I Rs.5200-20200 with GP of Rs. 1800/-	Not Applicable	30 years (relaxable upto 5 years for employees of Central Government, State Government, Universities, Autonomous Bodies and candidates belonging to the SC/ST/ OBC/PWD and other special categories of persons specified in the orders/instructions issued by the Central Government from time to time in regard to age relaxation)

7	8	9	10
Matriculation or its equivalent examination.	Not Applicable	Two years	Direct Recruitment (Written and Skill Test)

11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.

[F. No. 4-43/2014-U1A]

S. S. SANDHU, Jt. Secy.